





१. राजस्व प्राप्तियाँ क्या हैं?

→ वे सरकारी प्राप्तियाँ जिनकी उत्पत्ति के लिए सरकार को उधार लेना पड़े या सार्वजनिक संपत्ति नहीं बेचनी पड़े और न ही सार्वजनिक जमा देयताएँ बढ़ानी पड़े।

२. बुंजीगत प्राप्तियाँ क्या हैं?

→ वे प्राप्तियाँ जिनकी उत्पत्ति के लिए या तो सार्वजनिक संपत्तियाँ बेचनी पड़े या सार्वजनिक देयताएँ बढ़ानी पड़े।

सरकार के व्यय/खर्च



- ↓
- केन्द्र सरकार द्वारा पंच वषीय, केन्द्रीय स्वरूप राज्य की योजनाओं के लिए किया गया व्यय ।
 - ये उत्पादन प्रकृति के व्यय हैं ।

- ↓
- ब्याज अदायगी, सस्सीजी, रक्षा व्यय, वेतन, पेंशन आदि ।

• राजस्व व्यय > <u>योजनागत व्यय</u> • गैर-योजनागत व्यय > <u>गैर-योजनागत व्यय</u>

* सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों पर सरकार ने व्यय के इस वर्गीकरण को स्वीकार कर दिया है।

विकासोत्पन्न व्यय -

बाँध, पुल, कारखाने, रेलवे, सड़क आदि ।

गैर-विकासोत्पन्न व्यय -

वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, रक्षा व्यय आदि ।

* योजनागत खर्च का कार्य -

- पहले देखता था — योजना आयोग [पुनः संस्था - नीति आयोग]
- अब देखता है — नीति आयोग नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय

सरकारी घाटे

i) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) —

$$\begin{array}{ccc} \text{कुल व्यय} & - & \text{कुल प्राप्तियाँ} \quad (\text{ऋण ग्राहण को छोड़कर}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\text{राजस्व} + \text{पूंजीगत}) & & (\text{राजस्व} + \text{पूंजीगत}) \end{array}$$

ii) राजस्व घाटा (Revenue Deficit) —

$$\text{राजस्व व्यय} - \text{राजस्व प्राप्तियाँ}$$

iii) पूंजीगत घाटा (Capital Deficit) —

$$\text{पूंजीगत खर्च} - \text{पूंजीगत प्राप्तियाँ}$$

iv) बजट घाटा —

$$\text{कुल खर्च} - \text{कुल प्राप्तियाँ} \quad (\text{बाजार से उधार और अन्य दायित्वों को भी सम्मिलित किया गया है।})$$

→ बजट घाटे को पूरा करना —

i) RBI से उधार लेकर

ii) RBI के पास पड़ा हुआ Cash Balance कम करना।